

तुरंत रिलीज के लिए

## सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने शेरिडन के नए सेंटर फॉर हेल्दी कम्युनिटीज के लिए 2.5 मिलियन डॉलर के साथ ब्रैम्पटन में हेल्थ केयर के लिए अधिक मजबूत भविष्य में निवेश करना जारी रखा

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (7 जून, 2022) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने लोकल हेल्थ केयर के लिए अधिक मजबूत भविष्य में निवेश करना जारी रखा। इसके लिए ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल (Brampton City Council) ने, शेरिडन कॉलेज (Sheridan College) के नए सेंटर फॉर हेल्दी कम्युनिटीज (Centre for Healthy Communities) की हिमायत के लिए, 2.5 मिलियन डॉलर की फंडिंग को मंजूरी दी।

क्रोनिक बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए बेहतर देखभाल प्रदान करने और पील रीजन (Peel Region) में, मेडिकल प्रोफेशनल्स की बेहद आवश्यक जरूरत को पूरा करने में मदद के लिए, सेंटर फॉर हेल्दी कम्युनिटीज निम्नलिखित काम करेगा:

- ब्रैम्पटन में नर्सों और संबंधित हेल्थ प्रोफेशनल्स की अगली पीढ़ी को ट्रेनिंग देना, जो ब्रैम्पटन, पील और ओनटैरियो के लोगों की देखभाल करेंगे; और सांस्कृतिक तौर पर उचित देखभाल के लिए एक साझे विजन की हिमायत करना।
- विद्यार्थियों, अकैडमिक्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स, टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स, सोशल सर्विस प्रोवाइडर्स और निवासियों के बीच में, इनोवेशन और साझेदारियों की लिविंग लैब बनना।
- इंटरप्रोफेशनल, निवारक देखभाल के द्वारा, क्रोनिक बीमारी प्रबंधन पर ध्यान देकर हॉलवे हेल्थ केयर पर ध्यान देने में मदद करना।
- लोकल और रीजनल तौर पर आर्थिक वृद्धि को प्रेरित करना, जो निर्माण, देखभाल, शिक्षा, हेल्थ केयर, एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्री साझेदारियों में, अनुमानित 200 से 500 तक नई नौकरियों और क्षेत्र के लिए बढ़े हुए ट्रांजिट कनेक्शनों के द्वारा होगा।
- ब्रैम्पटन में पोस्ट सेकेंडरी विकल्पों को बढ़ाना, जो क्लिनिकल किनेसियोलॉजी (Clinical Kinesiology), रेग्युलेटरी अफेयर्स और क्लिनिकल रिसर्च तथा विचाराधीन प्रोविंसियल मंजूरी, बेचलर्स ऑफ नर्सिंग एंड ऑस्टियोपैथी (Bachelors of Nursing and Osteopathy) में, गैजुएट सर्टीफिकेट शामिल करके होगा।

सिटी की फंडिंग, शेरिडन के 20 मिलियन डॉलर के निवेश में वृद्धि करती है। यह, ब्रैम्पटन में डेविस (Davis) कैम्पस में नई बिल्डिंग की प्लानिंग और कंसल्टेशन में सहायता करेगी। कुछ नई प्रोग्रामिंग, पतझड़ 2022 में जल्दी शुरू हो जाएगी, जबकि बाकी नई जगहों की विचाराधीन मंजूरीयों तथा विकास के पूरा होने पर उपलब्ध होगी।

### ब्रैम्पटन के लिए फेयर डील

22 जनवरी, 2020 को, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने हेल्थ केयर एमरजेंसी की घोषणा की थी और अपने एडवोकेसी कैम्पेन, “फेयर डील फॉर ब्रैम्पटन” (“Fair Deal for Brampton”) की शुरुआत की थी – इस कैम्पेन प्रांत से अतिरिक्त फंडिंग का अनुरोध किया गया था, ताकि ब्रैम्पटन के हेल्थ केयर गैप को पूरा किया जा सके। सिटी, ब्रैम्पटन में हेल्थ केयर एमरजेंसी पर ध्यान देने हेतु और यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है कि हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स की अगली पीढ़ी को, शहर में लोकल तौर पर ही ट्रेनिंग दी जा सकती है।

फेयर डील फॉर ब्रैम्पटन कैम्पेन के बारे में अधिक जानकारी के लिए, [Brampton.ca](http://Brampton.ca) पर जाएं।

### संक्षिप्त तथ्य

- मार्च 2021 में, सिटी ने [प्रोविंसियल सरकार की बजट संबंधी घोषणा का स्वागत किया \(welcomed a budget announcement from the Provincial government\)](#), जिसमें सरकार ने ओसलर के पील मेमोरियल हेल्थ सिस्टम फॉर इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड वेलनेस (Osler's Peel Memorial Centre for Integrated Health and Wellness) का विस्तार, नए अस्पताल में करने के लिए फंडिंग की घोषणा की थी।
- 2022 के बजट के हिस्से के तौर पर, सिटी ने [हेल्थ केयर विस्तार के लिए अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई थी \(showed its commitment to health care expansion\)](#), जिसमें नए पील मेमोरियल अस्पताल (Peel Memorial Hospital) के लिए लोकल हिस्से में, 62.5 मिलियन डॉलर की फंडिंग नियत की गई थी। अप्रैल में, सिटी ने इस प्रतिबद्धता को पूरा करने और हेल्थ केयर विस्तार की हिमायत के लिए, एक प्रतिशत अस्पताल लेवी के लिए मंजूरी दी थी।
- मार्च 2022 में, ओनटैरियो सरकार ने घोषणा की कि वह मेडिकल स्कूल शिक्षा का विस्तार कर रही है, जिसमें अधिक मजबूत, अधिक स्थिर हेल्थकेयर सिस्टम बनाया जाएगा, इसमें शामिल है, ब्रैम्पटन में जब रायरसन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन (Ryerson University School of Medicine) 2025 में खुलेगा, तो इसके लिए 80 अंडरग्रेजुएट सीटें और 95 पोस्टग्रेजुएट पोजीशन्स शामिल करना। जुलाई 2021 में, [ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल ने 1 मिलियन डॉलर प्लानिंग ग्रांट के पक्ष में वोट दिया था \(Brampton City Council voted in favour of a \\$1 million planning grant\)](#), ताकि शहर में भविष्य के स्कूल ऑफ मेडिसिन (School of Medicine) को फंड देने में मदद की जा सके, यह उस वर्ष पहले, [ओनटैरियो प्रांत के द्वारा निवेश की गई \(invested by the Province of Ontario\)](#) फंडिंग से मेल खाती है। ब्रैम्पटन में एक मेडिकल स्कूल की स्थापना करना, सिटी के जारी एडवोकेसी काम का एक खास हिस्सा रहा है और इसे [सिटी के 2022 के ओनटैरियो प्री-बजट सबमिशन \(City's 2022 Ontario Pre-Budget Submission\)](#) में शामिल किया गया था।
- अप्रैल 2022 में, [प्रांत ने घोषणा की कि वह 21 मिलियन डॉलर का निवेश कर रहा है \(Province announced that it is investing \\$21 million\)](#), ताकि ओसलर के पील मेमोरियल को 24/7 एमरजेंसी डिपार्टमेंट वाले नए भर्ती रोगी अस्पताल में बदलने और ब्रैम्पटन सिविक अस्पताल (Brampton Civic Hospital) में कैंसर केयर सेवाओं के विस्तार को और हिमायत मिल पाए।

### हवाले

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, हमारे लोकल हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो लोकल प्रतिभा को विकसित करे, आर्थिक वृद्धि पैदा करे और हमारे निवासियों की जरूरतों को पूरा करे। शेरिडन कॉलेज के नए सेंटर फॉर हेल्दी कम्युनिटीज के लिए यह प्रतिबद्धता, न केवल हमारे निवासियों के लिए हेल्थ केयर की उपलब्धता में सुधार करेगी, बल्कि यह नौकरियों और प्रतिभा को आकर्षित करने और कायम रखने में मदद करते हुए, लोकल तौर पर स्थिर आर्थिक विकास को भी मजबूत करेगी, केवल ब्रैम्पटन में ही शेरिडन कॉलेज में अनुमानित 200 से 500 फुल-टाइम नौकरियां।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्रैम्पटन के निवासी, हमारे विकासशील शहर में ही मौजूद बढ़िया किस्म की हेल्थ केयर और शिक्षा के हकदार हैं। शेरिडन कॉलेज के लिए क्षेत्र का रीजनल काउंसलर होने के तौर पर, मुझे इस निवेश की हिमायत करके खुशी हुई थी, जो कम्युनिटी की हेल्थ संबंधी जरूरतों पर ध्यान देने में मदद करते हुए, क्वालिटी पोस्ट-सेकंडरी शिक्षा तक पहुंच में सुधार प्रदान करने में मदद करेगा, जहां से वह प्रतिभा निकलेगी, जिसकी हमारे इम्प्लॉयर्स को जरूरत है।”

- *मार्टिन मेडेइरोस (Martin Medeiros), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 3 और 4, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“ब्रैम्पटन, कॅनेडा की सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाली और सबसे अधिक युवा कम्युनिटीज में से एक है और अवसरों का शहर होने के तौर पर, हम हमारे निवासियों के लिए पोस्ट सेकंडरी अवसरों का विस्तार करने और भविष्य की हेल्थ केयर जरूरतों हेतु तैयार होने के लिए प्रतिबद्ध हैं। शेरिडन कॉलेज के नए सेंटर फॉर हेल्दी कम्युनिटीज में यह निवेश, मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए ब्रैम्पटन की जरूरत को पूरा करने और निवासियों के लिए लोकल शिक्षा संबंधी अवसर प्रदान करने में मदद करेगा।”

- *पॉल मोरिसन (Paul Morrison), इंटरिम चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“हम, ब्रैम्पटन में पोस्ट सेकंडरी अवसरों को बढ़ाने के लिए बेहद उत्साहित हैं, विशेषकर कम्युनिटी की महत्वपूर्ण जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करके, जब क्रोनिक बीमारियों पर ध्यान देने की बात आती है। पील के आधे निवासियों को कम से कम एक निदान हुई क्रोनिक बीमारी है और ब्रैम्पटन की 73 प्रतिशत आबादी विजीबल अल्पसंख्यक है और उन्हें सांस्कृतिक तौर पर उचित देखभाल तक पहुंच की कमी है। इस कम्युनिटी को सेंटर फॉर क्रोनिक डिजीज मैनेजमेंट की जरूरत है, जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होगा। यह, डायबिटीज, कार्डियोवेस्कुलर बीमारी तथा अन्य क्रोनिक बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए, महत्वपूर्ण रोकथाम और प्रबंधन जरूरतों पर ध्यान देगा, जिस कारण लोगों को एमरजेंसी रूम में जाना पड़ता है। ब्रैम्पटन में कम से कम 700 नई पोस्ट सेकंडरी हेल्थ केयर सीटें प्रदान करके, हम पील रीजन में, लोकल, उच्च ट्रेनिंग प्राप्त हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को रखने में मदद कर रहे हैं।”

- *जैनेट मोरिसन (Janet Morrison), प्रेजिडेंट और वाइस-चांसलर, शेरिडन कॉलेज*

-30-

कॅनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें! [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

**मीडिया संपर्क**

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया  
[multiculturalmedia@brampton.ca](mailto:multiculturalmedia@brampton.ca)